

# Tit

## Chapter 3

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1 Ὑπομίμησε αὐτοῦς ἀρχαῖς, ἐξουσίαις, ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν; πρὸς πάν  
यअद-दिल उनहेन शशकोन, अधिकअरियोन, अधेएन-रहन, मअन्न; के-प्रति हर  
[G5279](#) [G0846](#) [G0746](#) [G1849](#) [G5293](#) [G3980](#) [G4314](#) [G3956](#)
- ἔργον ἀγαθὸν, ἐτοίμους εἶναι;  
कअम भलेए, तैयअर होन;  
[G2041](#) [G0018](#) [G2092](#) [G1510](#)

लोगों को याद दिलाता रह कि वे राजाओं और अधिकारियों के अधीन रहें। उनकी आज्ञा का पालन करें। हर प्रकार के उत्तम कार्यों को करने के लिए तैयार रहें।

- 2 μηδένα βλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπαικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυμένουσ πρᾶϋτητα  
किसि निन्द-न-करन, लदअयि-हेएन होन, नरम, सभि दिखअनेवले नरमतअ  
[G3367](#) [G0987](#) [G0269](#) [G1510](#) [G1933](#) [G3956](#) [G1731](#) [G4240](#)
- πρὸς πάντας ἀνθρώπους.  
के-प्रति सब मनुशयोन.  
[G4314](#) [G3956](#) [G0444](#)

किसी की निन्दा न करें। शांति-प्रिय और सज्जन बनें। सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें।

- 3 Ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες  
थे क्योनकि कभि भि हम मोओरख, अवग्य, भतके-हुए, दअस-थे  
[G1510](#) [G1063](#) [G4218](#) [G2532](#) [G1473](#) [G0453](#) [G0545](#) [G4105](#) [G1398](#)
- ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί,  
इचछओन और सुख विविध, मेइन बुरए और दअह बितते-हुए, घरिन-योग्य,  
[G1939](#) [G2532](#) [G2237](#) [G4164](#) [G1722](#) [G2549](#) [G2532](#) [G5355](#) [G1236](#) [G4767](#)
- μισοῦντες ἀλλήλους.  
नफ़रत-करनेवले एक-दोओसे.  
[G3404](#) [G0240](#)

यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक समय था, जब हम भी मूर्ख थे। आज्ञा का उल्लंघन करते थे। भ्रम में पड़े थे। तथा वासनाओं एवं हर प्रकार के सुख-भोग के दास बने थे। हम दुष्टता और ईर्ष्या में अपना जीवन जीते थे। हम से लोग घृणा करते थे तथा हम भी परस्पर एक दूसरे को घृणा करते थे।

- 4 ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη, τοῦ Σωτῆρος  
जब और वोह भलअयि और वोह मनुश्य-प्रेम प्रगतित-हुअ, उस उदधरकरत  
[G3753](#) [G1161](#) [G3588](#) [G5544](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5363](#) [G2014](#) [G3588](#) [G4990](#)
- ἡμῶν, Θεοῦ,  
हमरे, परमेशवर,  
[G1473](#) [G2316](#)

किन्तु जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की मानवता के प्रति करुणा और प्रेम प्रकट हुए

5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ, ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ  
 नहिन से करमोन उन मेइन धरमिक्तअ, जो किये हुम-ने, परन्तु के-अनुसअर  
[G3756](#) [G1537](#) [G2041](#) [G3588](#) [G1722](#) [G1343](#) [G3739](#) [G4160](#) [G1473](#) [G0235](#) [G2596](#)

τὸ αὐτοῦ ἔλεος, ἔσωσεν ἡμᾶς, διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας, καὶ  
 उस उसकि दय, बचअय हमेन, के-दवर स्नन पुन-उतपत्ति, और  
[G3588](#) [G0846](#) [G1656](#) [G4982](#) [G1473](#) [G1223](#) [G3067](#) [G3824](#) [G2532](#)

ἀνακαινώσεως Πνεύματος Ἁγίου;  
 नये-करने अअतम पवित्र;  
[G0342](#) [G4151](#) [G0040](#)

उसने हमारा उद्धार किया। यह हमारे निर्दोष ठहराये जाने के लिये हमारे किसी धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ बल्कि उसकी करुणा द्वारा हुआ। उसने हमारी रक्षा उस स्नान के द्वारा की जिसमें हम फिर पैदा होते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा नये बनाए जाते हैं।

6 οὗ ἐδέχεεν ἐφ' ἡμᾶς πλουσίως, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν,  
 जिसे उन्देल पर हमेन बहुतअयत-से, के-दवर येशु खरिस्तोस, उस उदधरकरत हमरे,  
[G3739](#) [G1632](#) [G1909](#) [G1473](#) [G4146](#) [G1223](#) [G2424](#) [G5547](#) [G3588](#) [G4990](#) [G1473](#)

उसने हम पर पवित्र आत्मा को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा भरपूर उँडेला है।

7 ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι, κληρονόμοι γενηθῶμεν, κατ' ἐλπίδα  
 तअकि धरमिक-थहए उस उसके अनुग्रह, वअरिसेन हो-जअयेन, के-अनुसअर अअश  
[G2443](#) [G1344](#) [G3588](#) [G1565](#) [G5485](#) [G2818](#) [G1096](#) [G2596](#) [G1680](#)

ζωῆς αἰωνίου.  
 जिवन अनन्त.  
[G2222](#) [G0166](#)

अब परमेश्वर ने हमें अपनी अनुग्रह के द्वारा निर्दोष ठहराया है ताकि जिसकी हम आशा कर रहे थे उस अनन्त जीवन के उत्तराधिकार को पा सकें।

8 Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι,  
 विशवअस्योग्य वोह वचन, और के-बअरे-मेइन इन चअहत-होओन तुझे द्रिध-करन,  
[G4103](#) [G3588](#) [G3056](#) [G2532](#) [G4012](#) [G3778](#) [G1014](#) [G4771](#) [G1226](#)

ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προϊστασθαι, οἱ πεπιστευκότες Θεῷ. ταῦτά  
 तअकि धयअन-रखेइन भलेए करमोन के-लिये-अअगे-रहनेवले, वोह विशवअस-किये-हुए परमेशवर. ये  
[G2443](#) [G5431](#) [G2570](#) [G2041](#) [G4291](#) [G3588](#) [G4100](#) [G2316](#) [G3778](#)

ἐστὶν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις.  
 है भलेए और लअभदअयक उन मनुश्योन.  
[G1510](#) [G2570](#) [G2532](#) [G5624](#) [G3588](#) [G0444](#)

यह कथन विश्वास करने योग्य है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों पर डटे रहो ताकि वे जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, अच्छे कर्मों में ही लगे रहें। ये बातें लोगों के लिए उत्तम और हितकारी हैं।

9 μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς,  
 मोओरख और विवअदोन और वनशवअलियोन और झगदोन और लदएयोन व्यवस्थिक,  
[G3474](#) [G1161](#) [G2214](#) [G2532](#) [G1076](#) [G2532](#) [G2054](#) [G2532](#) [G3163](#) [G3544](#)

περιϊστασο; εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι.  
 दोओर-रेह; हैन क्योनकि लअभ-हेएन और व्यरथ.  
[G4026](#) [G1510](#) [G1063](#) [G0512](#) [G2532](#) [G3152](#)

वंशावलि सम्बन्धी विवादों, व्यवस्था सम्बन्धी झगड़ों झमेलों और मूर्खतापूर्ण मतभेदों से बचा रह क्योंकि उनसे कोई लाभ नहीं, वे व्यर्थ हैं।

10 αἰρετικὸν ἄνθρωπον, μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νοθεσίαν, παραιτοῦ,  
 विधरमिक मनुश्य, के-बअद एक और दोओसि चेतअवनि, त्यअग-दे,  
[G0141](#) [G0444](#) [G3326](#) [G1520](#) [G2532](#) [G1208](#) [G3559](#) [G3868](#)

जो व्यक्ति फूट डालता हो, उससे एक या दो बार चेतावनी देकर अलग हो जाओ।

- 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος, καὶ ἁμαρτάνει, ὧν αὐτοκατάκριτος.  
जअन्ते-हुए कि बिगद-गय-है वोह ऐस, और पअप-करत, होते-हुए स्व-दोशि.  
[G1492](#) [G3754](#) [G1612](#) [G3588](#) [G5108](#) [G2532](#) [G0264](#) [G1510](#) [G0843](#)

क्योंकि तुम जानते हो कि ऐसा व्यक्ति मार्ग से भटक गया है और पाप कर रहा है। उसने तो स्वयं अपने को दोषी ठहराया है।

- 12 Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σέ, ἣ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρὸς με  
जब भेजोन अरतेमस पस तेरे, य तुचिकोस, प्रयअस-कर अअन पस मेरे  
[G3752](#) [G3992](#) [G0734](#) [G4314](#) [G4771](#) [G2228](#) [G5190](#) [G4704](#) [G2064](#) [G4314](#) [G1473](#)

εἰς Νικόπολιν; ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι.  
को निकोपोलिस; वहन क्योनकि तय-किय-है सरदि-बितअन.  
[G1519](#) [G3533](#) [G1563](#) [G1063](#) [G2919](#) [G3914](#)

मैं तुम्हारे पास जब अरतिमास या तुचिकुस को भेजूँ तो मेरे पास निकुपुलिस आने का भरपूर जतन करना क्योंकि मैंने वहीं सर्दियाँ बिताने का निश्चय कर रखा है।

- 13 Ζηῶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς  
ज़ोनस उस व्यवस्थिक और अपोल्लोस लगन-से अअगे-भेज, तअकि कुछ-नहिन उनहेन  
[G2211](#) [G3588](#) [G3544](#) [G2532](#) [G0625](#) [G4709](#) [G4311](#) [G2443](#) [G3367](#) [G0846](#)

λείπη.  
कमि-हो.  
[G3007](#)

वकील जेनास और अपुलोस को उनकी यात्रा के लिए जो कुछ आवश्यक हो, उसके लिए तुम भरपूर सहायता जुटा देना ताकि उन्हें किसी बात की कोई कमी न रहे।

- 14 μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι, καλῶν ἔργων προῖστασθαι, εἰς  
सेएखेइन और भि वोह हमअरे, भलेए करमोन के-लिये-अअगे-रहनेवले, के-लिये  
[G3129](#) [G1161](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2251](#) [G2570](#) [G2041](#) [G4291](#) [G1519](#)

τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.  
उन ज़रोओरि ज़रोओरतेइन, तअकि नहिन होन निशशहल.  
[G3588](#) [G0316](#) [G5532](#) [G2443](#) [G3361](#) [G1510](#) [G0175](#)

हमारे लोगों को भी सतकर्मों में लगे रहना सीखना चाहिए। उनमें से भी जिनको अत्यधिक आवश्यकता हो, उसको पूरी करना ताकि वे विफल न हों।

- 15 Ἀσπάζονται σε, οἱ μετ' ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς  
नमस्कर-करते-हैन तुझे, वोह के-सअथ मेरे सब. नमस्कर-कर उन प्रेम-करनेवअलोन हमेन  
[G0782](#) [G4771](#) [G3588](#) [G3326](#) [G1473](#) [G3956](#) [G0782](#) [G3588](#) [G5368](#) [G1473](#)

ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. <Ἀμήν>.  
मेइन विशवअस. वोह अनुग्रह के-सअथ सब तुमहअरे. <अमेन>.  
[G1722](#) [G4102](#) [G3588](#) [G5485](#) [G3326](#) [G3956](#) [G4771](#) [G0281](#)

जो मेरे साथ हैं, उन सबका तुम्हें नमस्कार। हमारे विश्वास के कारण जो लोग हम से प्रेम करते हैं, उन्हें भी नमस्कार। परमेश्वर का अनुग्रह तुम सबके साथ रहे।